



## कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

### प्रेस नोट

दिनांक- 08.06.2022

दिनांक-08.06.2022 को पुलिस उपायुक्त काशी-जोन श्री आर0एस0 गौतम महोदय द्वारा दिनांक-09.06.2022 को गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा सुरक्षित व शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व को सम्पन्न कराने हेतु जन समान्य से अपील करते हुए पुलिसबल को निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

1. सम्पूर्ण घाटों पर 03 जोन 6 सेक्टर में ड्यूटियां लगायी गयी है जिसमें प्रत्येक जोन के प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त होंगे तथा सेक्टर के प्रभारी संबंधित थानों के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष होंगे।
2. गंगा दशहरा के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था हेतु सिविल पुलिस, घुड़सवार पुलिस, जल पुलिस, NDRF व यातायात पुलिस की ड्यूटियां लगायी गयी है।
3. गंगा दशहरा के दौरान जल पुलिस तथा NDRF की टीमों 3.00 बजे सुबह से ही पैट्रोलिंग करेंगी।
4. गंगा दशहरा पर्व के दौरान अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु घाटों पर माँ गंगा में स्नान करने हेतु दूर-दूर से आते हैं। जिससे यातायात को सुगम बनाने के दृष्टिगत 1. मैदागिन से गौदौलिया की तरफ, 2. जंगमबाड़ी से गौदौलिया की तरफ 3. रमापुरा चौराहे से गौदौलिया की तरफ कोई भी वाहन (दो पहिया, चार पहिया) नहीं जाएगा तथा मैदागिन टाउन हाल पार्किंग व बेनिया बाग में ही स्नानार्थी/श्रद्धालु अपने-अपने वाहन खड़ा करेंगे।
5. पुलिस उपायुक्त काशी-जोन महोदय द्वारा लोगों से अपील की गयी कि विगत दिनों गंगा नदी में स्नान के दौरान डूबने की घटनाओं के दृष्टिगत जगह-जगह घाटों पर गहरे पानी के संबंध में चेतावनी बोर्ड व बैरिकेटिंग लगायी गयी है। अतः स्नान बैरिकेटिंग के अंदर ही करें तथा गहरे पानी न जाए।
6. पुलिस उपायुक्त काशी-जोन महोदय द्वारा नाविकों/बजरा चालकों को यह भी निर्देश दिया गया कि नावों/बजरों पर क्षमता से अधिक लोगों को न बैठाये तथा जीवन रक्षक उपकरणों का प्रयोग करें, उल्लंघन करने पर उक्त नावों/बजरों को सीज कर दिया जाएगा तथा उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
7. दर्शन पूजन करने हेतु श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी मंदिरों में पुलिस बल की ड्यूटियां लगायी गयी है।
8. पुलिस उपायुक्त महोदय द्वारा आम-जनमानस से यह अपील की गयी कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखायी पड़ता है या कोई भ्रमक सूचना फैलाता है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें।

सोशल मीडिया सेल  
कार्यालय पुलिस उपायुक्त  
जोन-काशी कमिश्नरेट वाराणसी।